



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 561) पटना, सोमवार, 11 मई 2015

सं0 8प/वि-5-131/2013/पं०रा०/2514
पंचायती राज विभाग

संकल्प
5 मई 2015

विषय:—त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की राशि को ₹1,00,000.00 (एक लाख रुपये) मात्र से बढ़ा कर ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र करने की स्वीकृति।

त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है जिसके संबंध में विभिन्न स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा इनका बीमा कराये जाने की मांग की जाती रही है तथा सदन में प्रश्न भी पूछे गये हैं। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹1,00,000.00 (एक लाख रुपये) मात्र की राशि मृतक के आश्रित को दिये जाने का प्रावधान पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-8प/वि०-5-131/2013/पं०रा०/9641 दिनांक 08.12.2014 के माध्यम से किया गया है। उक्त अनुग्रह अनुदान की ₹1,00,000.00 (एक लाख रुपये) मात्र की राशि अपर्याप्त रहने के कारण इसे वर्तमान स्तर से बढ़ाकर ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:—

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना, दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में पूर्व में प्रावधानित ₹1,00,000.00 (एक लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि को बढ़ाकर ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। किन्तु यदि मृतक स्वयं भी आपराधिक

घटना में संलिप्त रहे हों या उनकी मृत्यु पुलिस/सुरक्षा बलों आदि से मुठभेड़ में हो जाती है तब उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। इस हेतु विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा प्रपत्र निर्धारित कर उसमें सूचनाएं प्राप्त की जायेंगी।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु अगर आंतकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधी हिंसा/सामूहिक हिंसा एवं हिंसा की घटनाओं में होती है और मृतक के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष), बिहार सरकार के संकल्प संख्या-ए०/विविध-(38)-60-2008- 8960 दिनांक 30.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान प्राप्त हो चुका हो तो उन्हें पंचायती राज विभाग द्वारा अनुमान्य उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

4. इस मद में होनेवाला व्यय निम्नांकित बजट शीर्षों से विकलनीय होगा:-

- (i) योजना मुख्य शीर्ष 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष- 0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-3102-अनुग्रह अनुदान
- (ii) योजना मुख्य शीर्ष 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197- ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष- 0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु- 3102-अनुग्रह अनुदान
- (iii) योजना मुख्य शीर्ष 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु-3102-अनुग्रह अनुदान
- (iv) योजना मुख्य शीर्ष 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-3102-अनुग्रह अनुदान

5. यह निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 561-571+1000-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>